



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 1979/फाल्गुन 18, 1900
No. 110] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 1979/PHALGUNA 18, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक विकास विभाग

प्रादेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1979

का० प्रा० 130(अ)/18 एफ० डी०/आई० गी० आर० ए०/79:—
यतः भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
के प्रादेश सं० का० प्रा० 112 (प्रा०)/18 क० क०/आई० डी० आर० ए०/
79, दिनांक 26 फरवरी, 1979 द्वारा, मैसर्स ब्रेन्ट फोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया)
लि०, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का पञ्चम उद्योग (विकास और
नियमित) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का धारा 18 क० क०
के अधीन 25 अगस्त, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित
है, की अवधि के लिए, ग्रहण किया गया है,

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि विद्युत उप-
करणों के उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से जन-साधारण
के हित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 च० च०
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित
करती है कि 26 फरवरी, 1979 से पूर्व की गयी और राजपत्र में इस
प्रादेश के प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं
से सम्बद्ध सभी संविदाओं सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों,
पंजाटों, स्थायी प्रादेशों या अन्य लिखितों का, जिनका उक्त औद्योगिक

उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है
या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो प्रवर्तन राजपत्र
में इस प्रादेश के प्रकाशन की तारीख से 25 अगस्त, 1979 तक की अवधि
के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत
या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा
दायित्व उक्त अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेंगे।

[का० सं० 5/14/78 सी०यू०सी०]

भार० एन० चोपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th March, 1979

S.O. 130(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 112(E)/18AA/IDRA/79, dated the 26th February, 1979, the management of the industrial undertaking known as Messrs. Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, has been taken over under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of the 25th August, 1979;

And, whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interest of the general public

with a view to preventing fall in the volume of production of electrical equipment :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments entered into before the 26th day of February, 1979 and in force immediately before the date of publication of this Order in the Official Gazette and relating to banks and financial institutions, to which the said industrial undertaking or the com-

pany owning such undertaking is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period upto and inclusive of the 25th August, 1979, from the date of publication of this Order in the Official Gazette and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[File No. 5/14/78-CUC.]

R. N. CHOPRA, It. Secy.